



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]  
No. 21]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 15, 2009/पौष 25, 1930  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2009/PAUSA 25, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2009

सं. 6/2009-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 30(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित मेलामाइन जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2933 61 00 के अंतर्गत आते हैं, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 107/2004-सीमाशुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 748(अ) तारीख 16 नवम्बर, 2004 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/29/2008-डीजीएडी, तारीख 21 नवम्बर, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 21 नवम्बर, 2008, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरम्भ की है और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, समीक्षा के सम्पन्न होने तक प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से 1 अक्टूबर, 2009 तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) उक्त नियमों के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 107/2004-सीमाशुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 748(अ) तारीख 16 नवम्बर, 2004 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अंत में, निम्नलिखित स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाये, 1 अक्टूबर, 2009 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी”।

[फा. सं. 354/28/2004-टीआरयू]

उन्मेष शरद वाघ, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 107/2004-सीमाशुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 748(अ) तारीख 16 नवम्बर, 2004 के द्वारा प्रकाशित हुई थी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2009

No. 6/2009-Customs

**G.S.R. 30(E).**—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/29/2008-DGAD, dated the 21st November, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 21st November, 2008, has initiated review in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Melamine, falling under tariff item 2933 61 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 107/2004-CUSTOMS, dated the 16th November, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 2004, and has requested for extension of anti-dumping duty up to 1st October, 2009, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 107/2004-CUSTOMS, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 748 (E), dated the 16th November, 2004, namely :—

In the said notification, at the end, the following shall be added, namely :—

“This notification shall remain in force up to and inclusive of the 1st October, 2009, unless the notification is revoked earlier.”

[F.No. 354/28/2004-TRU]

UNMESH SHARAD WAGH, Under Secy.

**Note.**— The Principal notification No. 107/2004-CUSTOMS, dated the 16th November, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 2004.